



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

नवंबर 28, 2025

संख्या 48

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	नवंबर 22	नवंबर 14	नवंबर 21	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3522039	3810598	3822610	12012	300571
1.1 संचलन में नोट	3522024	3810583	3822597	12014	300573
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	14	16	13	-3	-1
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	100	100	0	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	43	1	1
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1004627	782080	781205	-875	-223422
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8232	6753	6691	-62	-1541
2.6 अन्य बैंक	55696	44385	44277	-109	-11419
2.7 अन्य	435396	681763	668654	-13109	233258
3 अन्य देयताएं	1859836	2620935	2635356	14420	775520
कुल देयताएं / आस्तियां	6885967	7946657	7958935	12277	1072968
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4824616	5019121	5044497	25376	219881
2 सोना	570744	948278	932008	-16270	361264
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1267767	1731939	1730988	-951	463221
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	0	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	22714	31808	27060	-4748	4346
4.3 नाबाई	0	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	32892	2158	15485	13327	-17407
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	147936	190547	186046	-4502	38110
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	17236	20743	20787	44	3551

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	नवंबर 21, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6155363	688104	9281	-4472	443223	19778	609668	31522
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5015105	560600	25216	-1690	164271	-6957	227823	-6191
1.2 स्वर्ण	932008	104182	-16270	-2675	263846	26006	361265	36609
1.3 विशेष आहरण अधिकार	166088	18566	586	-84	10799	397	14182	581
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	42162	4757	-251	-23	4307	333	6399	524

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

नवंबर 28, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 806057 करोड़	2025													
	नवंबर 15	नवंबर 16	नवंबर 17	नवंबर 18	नवंबर 19	नवंबर 20	नवंबर 21	नवंबर 22	नवंबर 23	नवंबर 24	नवंबर 25	नवंबर 26	नवंबर 27	नवंबर 28
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	847980	848121	823691	838475	820808	823030	787196							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	105.2	105.2	102.2	104.0	101.8	102.1	97.7							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	नवंबर 14, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	350945	26353	-8433	41531	44914	64907
1.2 बैंकों से उधार	81534	-3573	-47165	-30442	-52103	-53730
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	26997	-468	-47801	-2918	-47113	2347
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	24093532	-82225	1380663	1512931	2204030	2237643
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.3	6.7	6.7	11.2	10.2
2.1.1 मांग	2991666	-109282	71704	293617	208379	476108
2.1.2 मीयादी	21101867	27057	1308959	1219314	1995651	1761535
2.2 उधारियां	834189	-12051	139421	-81059	74847	-83174
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1026265	-56502	3555	-35366	53750	85283
3 रिज़र्व बैंक से उधार	2158	-3331	-216093	-309308	-124419	-4465
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	868202	-62308	81394	-96087	102607	-234107
4.1 उपलब्ध नकदी	86122	-1440	4426	4248	4981	-7737
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	782080	-60868	76967	-100335	97627	-226370
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	278957	32379	12983	63155	24741	67646
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	26583	10793	9372	745	-1314	4856
5.3 बैंकों को अग्रिम	32235	-484	-7246	-7268	-10616	-8887
5.4 अन्य आस्तियां	63277	-636	-54280	-4076	-36514	2133
6 निवेश	6835685	-54225	383419	137758	420109	345709
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.8	6.3	2.1	6.9	5.3
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6835230	-54185	383787	137932	420350	345833
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	455	-40	-369	-175	-241	-124
7 बैंक ऋण	19345790	-47865	930654	1101818	1742011	1982973
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.2	5.7	6.0	11.2	11.4
7 क.1 खाद्य ऋण	79191	8820	22076	42660	4896	34034
7 क.2 खाद्यतर ऋण	19266599	-56685	908578	1059158	1737115	1948938
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	18979726	-49677	922309	1069874	1705960	1923114
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	87207	1266	6380	12244	19456	20359
7 ख.3 भुनाए गए	244018	462	5429	22958	18081	41230
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	12904	186	-1400	-2218	-796	-2108
7 ख.5 भुनाए गए	21937	-102	-2064	-1040	-690	376

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समास सप्ताह	2024	2025				
	नवंबर 22	अक्टूबर 24	अक्टूबर 31	नवंबर 07	नवंबर 14	नवंबर 21
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	3.50	3.50	3.25	3.25	3.25
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	3.85	..	3.60	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	80.22	..	80.29	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	72.07	..	72.83	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	28.50	..	28.37	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	12.04	..	9.11	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
बैंक दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
आधार दर	9.10/10.40	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.80/8.00	7.80/8.00	7.80/7.95	7.80/7.95	7.80/7.95
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारंकिता औसत)	6.56	5.53	5.58	5.40	5.37	5.41
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.46	5.46	5.46	5.45	5.43	5.38
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.65	5.59	5.60	5.59	5.57	5.56
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.62	5.58	5.58	5.59	5.57	5.56
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.86	6.49	6.50	6.51	6.53	6.56
एफबीआईएल[®] संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	84.50	87.71	88.72	88.71	88.74	88.64
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	88.45	101.79	102.67	102.30	103.32	102.32
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.74	1.94	1.94	1.97	1.81	1.86
3-माह	1.80	2.08	1.98	2.01	1.94	1.94
6-माह	2.01	2.28	2.14	2.12	2.10	2.11

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	नवंबर 14	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	28945493	-51646	-0.2	1422574	5.7	1658904	6.1	2427456	10.1	2583058	9.8
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3751223	31045	0.8	45606	1.3	120471	3.3	201083	6.2	295341	8.5
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3137172	-108643	-3.3	70557	2.7	297149	10.5	208361	8.5	479727	18.1
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	21943503	27526	0.1	1303177	6.9	1240994	6.0	1994606	11.0	1792165	8.9
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	113595	-1574	-1.4	3234	3.4	289	0.3	23406	31.5	15825	16.2
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8788361	48491	0.6	500626	6.6	277536	3.3	628822	8.4	684164	8.4
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1633175	103264		115642		125070		206532		324320	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7155186	-54772	-0.8	384984	6.0	152466	2.2	422290	6.6	359844	5.3
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	20152225	-51524	-0.3	942242	5.5	1084096	5.7	1783030	10.9	2007151	11.1
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	10230	-3373		-5257		-28016		3909		1081	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	20141995	-48151	-0.2	947499	5.5	1112112	5.8	1779121	10.9	2006070	11.1
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6555004	22473	0.3	194977	3.5	406476	6.6	588317	11.4	792523	13.8
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	38864	0	0	1748	5.2	2232	6.1	3240	10.1	3684	10.5
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	6477524	6588960	71086	1.1	217019	4.0	111436	1.7	575953	11.3	904464	15.9
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2147427	2605985	46257	1.8	27612	1.5	458558	21.4	208807	13.0	788239	43.4

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	नवंबर 21	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4807563	10937	0.2	93175	2.0	-21679	-0.4	300064	6.8	82943	1.8
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचालन में करेंसी	3724448	3861828	12014	0.3	45743	1.3	137381	3.7	201727	6.0	304624	8.6
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	832172	-1046	-0.1	43105	4.2	-159317	-16.1	74407	7.5	-236382	-22.1
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	113563	-32	0	4326	4.6	257	0.2	23930	31.9	14701	14.9
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1559050	-74125		-32475		50945		113035		398313	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1532033	-69377		-48589		56573		106596		393967	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-146962	90788		29174		-27946		-143287		-129989	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-158637	89343		33091		-1376		-148543		-131175	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5976505	8549	0.1	152543	2.9	425558	7.7	553952	11.4	582879	10.8
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	39231			1748	5.2	2599	7.1	2915	9.0	4052	11.5
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2147427	2620261	14276	0.5	57815	3.2	472835	22.0	226550	14.0	772312	41.8

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नवंबर 17, 2025	-	-	-	-	839	196682	-	-	-	-195843
नवंबर 18, 2025	-	-	-	-	979	183892	-341	-	-	-183254
नवंबर 19, 2025	-	-	-	-	869	180834	462	-	-	-179503
नवंबर 20, 2025	-	-	-	-	1072	166262	-	-	-	-165190
नवंबर 21, 2025	-	-	16363	-	445	174122	-	-	-	-157314
नवंबर 22, 2025	-	-	-	-	3084	149537	-	-	-	-146453
नवंबर 23, 2025	-	-	-	-	4934	152089	-	-	-	-147155

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	सितंबर	अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	194.2	196.8	197.0	197.3	0.2	2.8	0.3
1.1 ग्रामीण	196.7	199.5	198.8	199.0	0.1	2.6	-0.3
1.2 शहरी	191.4	193.7	194.9	195.4	0.3	2.9	0.9
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	143.3	144.5	147.3	..	..	..	..
3 शोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	154.7	156.7	154.9	154.8	-0.1	0.0	-1.2
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	195.5	200.6	189.0	188.2	-0.4	1.5	-6.2
3.2 ईंधन और बिजली	147.2	148.8	143.4	145.0	1.1	-4.7	-2.6
3.3 विनिर्मित उत्पाद	141.9	142.9	145.2	145.1	-0.1	0.3	1.5

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अक्टूबर 31, 2025	514877	24530	5.76 - 6.46
नवंबर 14, 2025	534617	54949	5.50 - 6.63

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अक्टूबर 31, 2025	479630	52398	5.79 - 14.93
नवंबर 15, 2025	501658	66526	5.86 - 9.71

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	नवंबर 22, 2024	नवंबर 14, 2025	नवंबर 21, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	14474	26594	28904
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	1225	8472	1451
3 त्रिपक्षीय रेपो	707471	807745	707312
4 बाजार रेपो	493723	831127	687971
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	4588	16424	13615

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

नवंबर 21, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	5888	16737	87428	207328
182-दिवसीय	45085	40276	16430	187230
364-दिवसीय	72918	81117	45822	360822
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (नवंबर 21, 2025 तक)	2024-25 (नवंबर 22, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (नवंबर 21, 2025 तक)	2024-25 (नवंबर 22, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	966000	931697	1400697	661120	582271	1039275
2. राज्य सरकारें	598562	494695	1073310	398715	330474	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल, निदेशक द्वारा प्रकाशित।